

Hindi / हिंदी – DMCA Notices

[Home](#) / [Hindi / हिंदी – Disney Terms of Use](#) / Hindi / हिंदी – DMCA Notices

DMCA सूचनाएं

शीर्षक 17, युनाइटेड स्टेट्स कोड, धारा 512(सी)(2) के अनुपालन में, कॉपीराइट के उल्लंघन के दावों की अधिसूचनाएं सेवा प्रदाता के नियुक्त अभिकर्ता को भेजी जानी चाहिए।

अधिसूचना को निम्न नियुक्त अभिकर्ता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए: सेवा प्रदाता: The Walt Disney Company

उल्लंघन के दावे की अधिसूचना प्राप्त करने वाले नियुक्त अभिकर्ता का नाम: Lance R. Griffin

उस नियुक्त अभिकर्ता का पूरा पता जिसे अधिसूचना भेजी जानी चाहिए: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

नियुक्त अभिकर्ता का टेलीफोन नंबर: +1 818-560-1000

नियुक्त अभिकर्ता का फ़ैक्स नंबर: +1 818-560-4299

नियुक्त अभिकर्ता का ई-मेल पता: designated.agent@dig.twdc.com

प्रभावी होने के लिए, अधिसूचना एक लिखित सूचना होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:

1. कोई विशिष्ट अधिकार, जिसका कि कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, के स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर;
2. उस कॉपीराइट किए गए कार्य की पहचान, जिसके उल्लंघन किए गए होने का दावा किया गया था या यदि एकल ऑनलाइन साइट पर कॉपीराइट किए गए कई कार्य किसी एकल अधिसूचना द्वारा आवरित हैं, तो उस साइट पर ऐसे कार्यों की एक प्रतिनिधि सूची;
3. उस सामग्री की पहचान, जिसे उल्लंघनकारी होने का दावा किया गया है या जिसे उल्लंघनकारी गतिविधि का विषय होने का दावा किया गया है और जिसे हटाया जाना है या जिस तक पहुंच को

अक्षम किया जाना है और पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत जानकारी, जिससे हम सामग्री का पता लगा सकते हैं;

4. पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत जानकारी, जिससे हम शिकायत करने वाले पक्ष से संपर्क कर सकें, जैसे कि पता, टेलीफोन नंबर और यदि, उपलब्ध हो, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, जिस पर शिकायत करने वाले पक्ष से संपर्क किया जा सके;
5. इस बात का कथन कि शिकायत करने वाले पक्ष को सद्भावना के साथ विश्वास है कि सामग्री के उस ढंग से उपयोग को, जिसकी कि शिकायत की गई है, कॉपीराइट के स्वामी, उसके अभिकर्ता, या कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है; और
6. इस बात का कथन कि अधिसूचना में दी गई जानकारी सटीक है, और मिथ्या साक्ष्य के जुर्माने के अधीन है, यह कि शिकायत करने वाला पक्ष एक विशेष अधिकार के स्वामी की ओर से कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है जिसका कि कथित रूप से उल्लंघन किया गया है ।

हम आपको सूचना दे सकते हैं कि हमने कतिपय सामग्री तक पहुंच को किसी भी Disney सेवा पर एक साधारण सूचना, हमारे रिकॉर्डों में किसी उपयोगकर्ता के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक मेल, या हमारे रिकॉर्डों में आपके भौतिक पते पर प्रथम श्रेणी की डाक द्वारा लिखित सूचना के द्वारा हटा दिया या अक्षम कर दिया है। यदि आपको ऐसी सूचना मिलती है, तो आप नियुक्त अभिकर्ता को लिखित रूप में जवाबी-अधिसूचना प्रदान कर सकते हैं जिसमें निम्न जानकारी शामिल हो। प्रभावी होने के लिए, जवाबी अधिसूचना को लिखित सूचना होना अनिवार्य है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो:

1. आपके भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर;
2. उस सामग्री की शिनाख्त जिसे हटाया गया है या जिस तक पहुंच को अक्षम किया गया है, और वह स्थान जहाँ वह सामग्री उसके हटाए जाने या उस तक पहुंच को अक्षम किए जाने से पहले प्रकट हुई थी;
3. मिथ्या साक्ष्य के जुर्माने के अधीन आपका एक कथन, कि आपको अच्छी भावना के साथ विश्वास है कि सामग्री को किसी गलती या हटाई या अक्षम की जाने वाली सामग्री की गलत शिनाख्त के परिणामस्वरूप हटाया या अक्षम किया गया था; और
4. आपका नाम, भौतिक पता और टेलीफोन नंबर, और एक कथन कि आप उस न्यायिक जिले के लिए, जिसमें आपका भौतिक पता स्थित है, या यदि आपका भौतिक पता युनाइटेड स्टेट्स के बाहर है, तो किसी भी न्यायिक जिले के लिए जिसमें Disney Interactive पाया जा सकता है, अमेरिकी संघीय जिला अदालत के अधिकार-क्षेत्र को सहमति देते हैं, और यह कि आप उस व्यक्ति

या ऐसे व्यक्ति के अभिकर्ता से प्रक्रिया का वितरण स्वीकार करेंगे जिसने कथित रूप से उल्लंघनकारी सामग्री की अधिसूचना प्रदान की थी ।